



**Urja Global Ltd.**

(AN ISO 9001 Co.)

CIN No. L67120DL1992PLC048983

**Date: January 17, 2022**

**To  
BSE Limited  
PhirozeJeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai  
Maharashtra - 400001**

**To  
National Stock Exchange of India  
Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra(E),  
Mumbai, Maharashtra 400051**

**BSE Scrip Code- 526987**

**Ref: NSE Symbol -URJA**

**Sub: Submission of the Newspaper Cutting of Publication of Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the 2nd Quarter and half-year ending on September 30, 2021 and 3rd Quarter ending on December 31, 2021 pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Ref: Board Meeting held on January 15, 2022**

Dear Sir/Ma'am

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the company has published extract of statement of Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the 2nd Quarter and half-year ending on September 30, 2021 and 3rd Quarter ending on December 31, 2021 which have been approved by the Board of Directors at their meeting held on Saturday, January 15, 2022.

The said Un-Audited Financial Results have been published in Financial Express (English-All Edition) and Jansatta (Hindi- Delhi Edition) on Monday, January 17, 2022, scanned copy of which is attached herewith.

Further details will be available on the website of the Company i.e. at [www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in) and also on the website of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

This is for your information and records.

Thanking You

**For URJA GLOBAL LIMITED**

**NEHA SHUKLA  
Company Secretary & Compliance officer**

**Encl: As Stated Above**



**URJA GLOBAL LIMITED**  
Corp. Office : 487/63, 1<sup>st</sup> Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi-110087  
CIN: L67120DL1992PLC048983

**EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2021 (Rs. in Lakhs)**

S. No	PARTICULARS	Standalone		Consolidated		Standalone/Consolidated	
		Quarter Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	61.44	3,280.96	1,139.47	3,553.64	13,128.06	15,181.95
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	9.39	44.96	22.35	20.49	214.63	217.76
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	9.39	44.96	22.35	20.49	214.63	217.76
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	9.39	44.96	22.35	20.49	171.18	174.31
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	9.39	44.96	22.35	20.49	171.18	174.31
6	Equity Share Capital	5,197.06	5,072.06	5,197.06	5,072.06	5,197.06	5,197.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	8,236.71	12,016.32
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing operations)	0.002	0.009	0.004	0.004	0.033	0.030
	1. Basic	0.002	0.009	0.004	0.004	0.033	0.030
	2. Diluted	0.002	0.009	0.004	0.004	0.033	0.030

**Note:**  
1. The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.  
2. The Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.  
3. The Provision for Income Tax shall be made at the end of the year.  
4. The EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.  
5. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 15th January 2022.  
6. The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19. The Company has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on current indicators of future economic conditions. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial results has used internal and external sources on the expected future performance of the Company.  
7. The decrease in revenue is the effect of detention of officials for inquiry under Section 132(1)(b) and (c) of CGST Act, 2017 and Seizure of documents by the GST department.

Place: New Delhi  
Date: 15th January, 2022

Sd/-  
**MOHAN JAGDISH AGARWAL**  
Managing Director  
DIN: 07627568

**URJA GLOBAL LIMITED**  
Corp. Office : 487/63, 1<sup>st</sup> Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi-110087  
CIN: L67120DL1992PLC048983

**EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2021 (Rs. in Lakhs)**

S. No	PARTICULARS	Standalone		Consolidated		Standalone/Consolidated	
		Quarter Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	961.40	3,445.84	254.26	3,941.57	13,128.06	15,181.95
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	11.96	60.21	31.42	50.69	214.63	217.76
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	11.96	60.21	31.42	50.69	214.63	217.76
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	11.96	60.21	31.42	50.69	171.18	174.31
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	11.96	60.21	31.42	50.69	171.18	174.31
6	Equity Share Capital	5,197.06	5,072.06	5,197.06	5,072.06	5,197.06	5,197.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	8,236.71	-
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing operations)	0.002	0.012	0.006	0.010	0.033	0.042
	1. Basic	0.002	0.012	0.006	0.010	0.033	0.042
	2. Diluted	0.002	0.012	0.006	0.010	0.033	0.042

**Note:**  
1. The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.  
2. The Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.  
3. The Provision for Income Tax shall be made at the end of the year.  
4. The EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.  
5. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 15th January 2022.  
6. The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19. The Company has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on current indicators of future economic conditions. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial results has used internal and external sources on the expected future performance of the Company.  
7. The decrease in revenue is the effect of detention of officials for inquiry under Section 132(1)(b) and (c) of CGST Act, 2017 and Seizure of documents by the GST department.

Place: New Delhi  
Date: 15.01.2022

Sd/-  
**Mohan Agarwal**  
Managing Director  
DIN: 07627568

**Cholamandlam Investment and Finance Company Limited**  
Corporate Office: No.2, Dare House, 1<sup>st</sup> Floor, NSC Bose Road, Chennai – 600 001.  
Branch Office : 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

**PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE** (To be treated as notice u/s 8 (6))

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Cholamandlam Investment and Finance Company Limited, under the **Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the Possession on, 'As is where is basis' 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis' particulars of which are given below:-

S.N.	Borrower(s) / Co-Borrower(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Total Loan Outstanding	Type of Possession
1.	(Loan Account No. X0HEDHE00001356254 Delhi Branch) <b>1. AMIT SONI</b> At S/O LC SONI : F-17 A MIG Flats Pockets-F Hari Nagar, Mayapuri, South West Delhi- 110064 <b>2. LAL CHAND SONI</b> S/O JHUMAR SONI: F-17 A MIG Flats Pockets-F Hari Nagar, Mayapuri, South West Delhi- 110064 <b>3. SURENDER KUMAR SONI</b> <b>4. CHETAN SONI</b> <b>5. SHARDA SONI</b> <b>6. NARENDER SONI</b> <b>3 to 6 At S/O LC SONI : F-17 A MIG Flats Pockets-F Hari Nagar, Mayapuri, South West Delhi- 110064</b> <b>7. KAMAL KUMAR SONI</b> <b>8. RAJ KUMAR SONI</b> <b>9. SADHANA SONI</b> <b>10. POONAM SONI</b> <b>7 to 10 At: F-17 A MIG Flats Pockets-F Hari Nagar, Mayapuri, South West Delhi- 110064</b> <b>11. RAJASTHAN MOTORS PVT LTD.</b> At: D-78, Mayapuri Phase 2, New Delhi - 110064	<b>27-09-2021</b> <b>Rs. 35404048.18</b> (Rupees Three Crore Fifty Four Lakh(s) Four Thousand Fourty Eight & Paise Eighty Only)	<b>Property 1-</b> All That Piece And Parcel Of Property Bearing Dda Mig Flat No. 17-a, On Ground Floor, Pkt-F, Rajpuri Garden, Known As Hari Nagar New Delhi- 110064 <b>Property-2-</b> All That Piece And Parcel Of Property Bearing Dda Mig Flat No. F/16-a, Ground Floor, In The Layout Plan Of G-8 Area, Rajpuri Garden, Known As Hari Nagar, New Delhi – 110064 <b>Property 3-</b> All That Piece And Parcel Of Property Bearing Mig Flat Bearing No. 18-c, In Block F, Known As F-18-c, At Second Floor Alongwith Scoter Garage At The Ground Floor Situated In The Layout Plan Of G-8 Area Rajpuri Garden Known As Hari Nagar Resd. Scheme New Delhi <b>Property 4-</b> All That Piece And Parcel Of Property Bearing Mig Flat No. 17-c, On Second Floor, Pkt. F, In The Layout Plan Of G-8 Area Rajpuri Garden, New Delhi 110064 <b>Property- 5-</b> All That Piece And Parcel Of Property Bearing D-78 Built On Industrial Area Plot No.78 In Block -d Built On Land Measuring Area 118 Sq.yds. Duly Fitted With Water And Electric Connection Theren With All Its Land And Roof Rights Situated In The Layout Plan Of Rawari Line, Industrial Area Now Known As Mayapuri Phase II, New Delhi	<b>Rs. 4,62,00,000/-</b> (Rupees Four Crore Sixty Two Lakh(s) only)	<b>Rs. 46,20,000/-</b> (Rupees Forty Six Lakh Twenty Thousand Only)	<b>Rs.3,66,63,678.30/-</b> (Rupees Three Crore Sixty Six Lakh Sixty Three thousand Six Hundred Seventy Eight and Paise Three zero Only) <b>as on 14.01.2022</b>	<b>Symbolic</b>
2.	(Loan Account No. X0HEEDL00002162113 & X0HEEDL00002232989 Delhi Branch) <b>1. DHARAMVIR SINGH</b> <b>2. HARISH CHAUDHARY</b> <b>3. SAVITRI P</b> <b>1 to 3 At:</b> HN. 1743 UDAYCHAND MARG KOTLA MUBARKPUR LODHI ROAD DELHI, NEW DELHI 110003 <b>4. CHAUDHARY VENTURES PRIVATE LIMITED</b> At: 59 BASEMENT BHISHAMPITTH ROAD KOTLA MUBARKPUR, NEW DELHI – 110003 <b>5. ASPEK MEDIA PRIVATE LIMITED</b> At: BUILDING NO.104, G.FA2, SECTOR -38A, NOIDA BISHRAKH - 201301	<b>10-06-2021</b> <b>48891877.53</b> (Rupees Four Crore Eighty Eight Lakh(s) Ninety One Thousand Eight Hundred Seventy Seven & Paise Fifty Three Only)	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE PROPERTY AT FIRST FLOOR AND ABOVE WITH ROOF/TERRACE RIGHTS OF PROPERTY BEARING NO.806, ADMEASURING 250.SQ.YRDS. PART OF PROPERTY BEARING NO. 805 & 806, ADMEASURING 750 SQ.YDS, FALLING KHASRA NO 315/2 MIN. KHEWAT NO. 128, KHATAUNI NO 319, SITUATED AT ARJUN NAGAR, KOTLA MUBARKPUR, NEW DELHI - 110003	<b>Rs. 4,50,00,000/-</b> (Rupees Four Crore Fifty Lakh(s) only)	<b>Rs. 45,00,000/-</b> (Rupees Forty Five Lakh Only)	<b>Rs.5,25,25,759.38/-</b> (Rupees Five Crore Twenty Five Lakh Sixty Five Thousand Seven Hundred Fifty Nine and Paise Three Eight Only) <b>as on 14.01.2022</b>	<b>Symbolic</b>

1). Last Date of Submission of Sealed Bid/ Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC of is 16.02.2022 within 5.00 Pm at the Branch Office:- 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005. mentioned herein. Tenders that are not filled up or Tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.  
2. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 17.02.2022 at the above mentioned branch office address at 10.00 A.M.  
The tender will be opened in the presence of the Authorised Officer.  
3. Date of Inspection of the Immovable Property is on 12.02.2022 between 10.00 am to 3.30 pm.  
4. Further Interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expense, costs, etc. is due and payable till its realization.  
5. The notice is hereby given to the Borrower/s and Co-Borrower/s, to remain present personally at the time of Auction and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.  
6. The Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby given 30 DAYS SALE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 to pay the sum mentioned as above before the date of Auction falling which the immovable property will be auctioned and balance, if any will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays the amount due to Cholamandlam Investment and Finance Company Limited, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.  
7. The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above mentioned branch office.  
8. The Immovable property will be sold to the highest tenderer. However the Authorised Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary. The property as mentioned will not be sold below Reserve Price.  
9. Cholamandlam Investment and Finance Company Limited is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The property shall be auctioned on 'As is Where is Basis', 'As is What is Basis', and 'Whatever is There is Basis'.  
10. The Total Loan Outstanding amount is not the loan foreclosure amount. All other charges (if any) shall be calculated at the time of closure of the loan.  
11. The Demand Draft Should be made in favor of 'Cholamandlam Investment and Finance Company Limited' Only.  
For further details, contact the Authorised Officer, at the above mentioned Office address.

Sd/-  
**Authorised Officer**  
Cholamandlam Investment and Finance Company Limited

Place: DELHI, NCR Date : 17-01-2022

**इंडियन बैंक Indian Bank**  
इलाहाबाद ALLAHABAD

Branch: Civil Lines, Sitapur

**NOTICE OF SALE E-AUCTION**

Notice under Section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 read with Rule 6 (2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002

Whereas, the Authorized Officer of Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) had taken constructive possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in the following loan accounts with right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, AS IS WHATEVER THERE IS" basis for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided by the Service Provider - <https://www.mstcecommerce.com>.

Sl Name & Address of Borrower(s) / Proprietor/Partners/ Director(s)/ Guarantor(s)	Details of Immovable property (all the part & parcel of the property consisting of)	Dt. of Demand Notice	a) Reserve Price	b) Earnest Money	Date & time for submission of bid through e-auction mode
1. Borrowers- M/s. Khushali Agro Seeds, Village: Pargol, Badagaon, Lakhimpur Road, Sitapur. Borrowers/ Partners/ Guarantors- 1. Mr. Chandan Rastogi S/O Lt. Ram Singh Rastogi, R/o-1- H No: 318, Nai Basti, Sitapur, 261001, 2- H. No: 2/33, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow, 226010, 3-H No: 206A, Tower-2, Tulsiani Golf View Apartment, Sushant Golf City, Ansal API, Lucknow, 226030. 2. Mr. Vinay Rastogi S/O Lt. Ram Singh Rastogi, H No: 318, Nai Basti, Sitapur, 261001 3. Ms. Poonam Rastogi D/o Lt. Ram Singh Rastogi, R/o- 1, H No: 318, Nai Basti, Sitapur- 261001. 2. Ms. Poonam Rastogi W/o Dr. Asha Kumar Rastogi Vill: Near SBI, Bheetar Mohammedi, Lakhimpur Kheri U.P. 262804. 4. Mr. Praveen Rastogi S/O Lt. Ram Singh Rastogi, H No: 318, Nai Basti, Sitapur, 261001. 5. Shri Deepak Rastogi S/O Lt. Ram Singh Rastogi, Treat Restaurant, Jail Road, Sitapur. 6. Ms. Renu Rastogi W/o Shri Vimal Rastogi, Bahadurganj, Sadar Bazar, Shahjahanpur. 7. Ms. Anjana Rastogi W/o Shri Vineet Kumar Rastogi, H. No:33, Hyde Colony, Chandrakot, Aliganj, Lucknow.	1. a) Mortgage of land on Khata No. 556 Khadra No 1 area 0.089 Hect. Khata No. 556 Khadra No 4 area 0.130 Hect, Khata No. 558 Khadra No 5 area 0.097 Hect, & Khata No. 647 Khadra No 06 area 0.097 Hect, Total Area 0.413 Hect., situated at Vill- Badagaon, Pargana- Khairabad, Teh & Dist- Sitapur. Owned by Shri Chandan Rastogi. b) Bhami No 2, measuring 0.024 hect. situated at Village Badagaon, Tehsil & Dist. Sitapur. Owned by Shri Chandan Rastogi. c) Khadra No. 1777, 1779 mi, 1783 measuring 0.012 + 0.470 + 0.081 hect = 0.563 Hect, situated at Village Pargol, Pargana Khairabad, Tehsil and District Sitapur. Owned by Shri Chandan Rastogi and Shri Vinay Rastogi S/O Late Shri Ram Singh Rastogi. 2. Property at H.No. 847 (New Municipal House no. 350) measuring 2155.50 sq ft situated at Moh Nai Basti, Pargana Khairabad, Tehsil and Distt Sitapur. Owned by Shri. Chandan Rastogi, Shri. Praveen Rastogi, Shri. Deepak Rastogi, Smt. Poonam Rastogi, Smt. Renu Rastogi D/o Late Sh. Ram Singh Rastogi and Smt. Anjana Rastogi and legal heirs of Late Smt. Shyama Devi.	01/01/2020 22/12/2020	1.a) Rs. 302.40 Lakh b) Rs. 30.24 Lakh	c) A/c No. 50207407453 IFSC: IDIB000C633 d) Rs. 5,000/-	09.02.2022 till 5.00PM 10.02.2022 to 4.00 PM
2. Borrowers- M/s J. B Rice Industries, Registered office at : Village Ramnagar, hardoi Road, Distt- Sitapur (U.P.), Promoter/ Guarantor: (a) Shri Umesh Kr Agarwal S/O Shri Shambhu Nath Agarwal R/o Hardoi Road, Sitapur. (b) Shri Sunil Kr Agarwal S/O Shri Shambhu Nath Agarwal R/o Hardoi Road, Sitapur. (c) Smt. Nupur Agarwal W/o Shri Manish Agarwal, R/o 11/12 Peer Batavan, Tehsil Nawabganj, Distt Barabanki 2. Shri Pankaj Agarwal S/O Shri Laxmi Narayan Agarwal, R/o B-987, Sector-A, Mahanagar, Lucknow, U.P.	1. a) Plot Khadra No. 137 Sa, measuring 0.770 hect, situated at Village Juggar, Near Goel Institute, Faizabad Road, Pargana, Tehsil and Distt Lucknow owned by Smt. Nupur Agrawal W/o Sri Manish Agarwal, vide sale deed dated 10-06-2009 registered at Book No. 01 Volume no. 8637 upon Pg No. 137-162, Sr. No 5828 in the SRO II, Lucknow. (b) Plot Khadra No. 120, measuring 0.418 hect, situated at Village Juggar, Near Goel Institute, Faizabad Road, Pargana, Tehsil and Distt Lucknow owned by Smt. Nupur Agrawal W/o Sri Manish Agarwal vide sale deed dated 10-06-2009 registered at Book No. 01 Volume no. 8637 upon Pg No. 109-136, Sr. No 5827 in the SRO II, Lucknow. 2. Part of Land at Khadra No. 522 Ka, measuring area 0.4255 hect, situated at Vill Ram Nagar, near Sitapur to Hardoi road, Pargana Tehsil sadar, Distt Sitapur Owned by Shri. Umesh Agarwal and Shri. Sunil Agarwal both S/O Shri Shambhu Nath Agarwal, vide Sale deed dated 21-02-2014 vide Book No. 01 volume 4988 upon Pg No. 001 to 54 upon S.No. 1428 registered in the office of Sub registrar Sitapur. 3. Hypothecation- Plant and Machinery situated at factory premises at Vill Ram Nagar, near Sitapur, Distt Sitapur.	05/06/2020 26/10/2020	1. a) Rs. 382.24 Lakh b) Rs. 38.22 Lakh	c) A/c No. 50207407453 IFSC: IDIB000C633 d) Rs. 5,000/-	09.02.2022 till 5.00PM 10.02.2022 to 4.00 PM

For verification about the title document, property & inspection thereof, the intending bidders may contact Indian Bank (e-aib), Civil Lines Branch, Sitapur during office hours. and for auction related query intending bidders may contact :- Mob. No. 8090434889

For downloading further details and Terms & Conditions, please visit: <https://ibapi.in> or <https://www.mstcecommerce.com>

THE BORROWER(S)/GUARANTOR(S) ARE HEREBY NOTIFIED ABOUT THE SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

Place: Sitapur, Date :14.01.2022 Authorised Officer, Indian Bank Erstwhile Allahabad Bank

**"FORM NO. INC-26"**  
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another  
Before the Central Government (Regional Director), Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi AND  
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(b) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 as amended upto date AND  
In the matter of Chromalox India Precision Heat & Control Private Limited (CIN : U31900DL2009PTC193919) having its registered office at C-52, 1<sup>st</sup> Floor, C-Block, Community Centre, Behind Janak Cinema, Janakpuri, New Delhi-110058  
.....Petitioner

**NOTICE**  
Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on Thursday, 13<sup>th</sup> January, 2022 to enable the Company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2<sup>nd</sup> Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office as mentioned above.  
On behalf of the Board  
For Chromalox India Precision Heat & Control Pvt Ltd  
Sd/-  
Gauray Sethi  
Director  
DIN : 07609969

Place : Delhi  
Date : 17.01.2022

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Form No. INC-26**  
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi  
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
In the matter of MANSAROVER INFRABUILD PRIVATE LIMITED (CIN: U1120DL1997PTC088567) having its Registered Office at C/O VIJAY KUMAR GUPTA 426, MOHALLA MAHARAM NEAR TASH FACTORY, SHAHDRA, DELHI- 110032  
.....Applicant Company / Petitioner  
NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 4<sup>th</sup> January, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days (14) from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-  
C/O VIJAY KUMAR GUPTA 426, MOHALLA MAHARAM NEAR TASH FACTORY, SHAHDRA, DELHI- 110032  
For & on behalf of MANSAROVER INFRABUILD PRIVATE LIMITED  
Sd/-  
KAMAL THAKUR  
(Director)  
Place : Delhi  
Date : 17.01.2022  
DIN : 01629547

**DCM Nouvelle Limited**  
CIN: L17309DL2016PLC307204  
Regd. Office: 407, Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008  
Tel: 011-45013348 | Email: info@dcmnvl.com

**Extract of the unaudited statement of financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2021**  
(Rs. in Lacs except as stated otherwise)

S. No	Particulars	Quarter Ended	Period Ended	Quarter Ended
		31/12/2021 (Un-audited)	31/12/2021 (Un-audited)	31/12/2020 (Un-audited)
1	Total income from operations	23,125	66,040	15,237
2	Net Profit (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	4,197	13,660	1,637
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,197	13,660	1,637
4	Net Profit (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	3,084	10,151	1,226
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax))	3,085	10,154	1,227
6	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,868
7	Reserves excluding Revaluation Reserve (as shown in the Balance Sheet of previous year)	1,651	54.35	6.56
8	Earnings per share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) -Basic and diluted (Rs.)	16.51	54.35	6.56

**Note:**  
1. The unaudited financial results of DCM Nouvelle Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 15 January 2022. The Statutory Auditors have carried out a limited review of unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31 December 2021, in accordance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.  
2. The above is an extract of the detailed format of financial results of the Company for the quarter and nine months ended on 31 December, 2021 filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone financial results are available on the Stock Exchanges' websites <http://www.nseindia.com> and <http://www.bseindia.com> under Financial Results in Corporates Section and on Company's website [www.dcmnvl.com](http://www.dcmnvl.com).  
For and on behalf of the Board of Directors  
**DCM Nouvelle Limited**  
Sd/-  
Rakesh Goel (Whole Time Director)  
DIN: 002260538

Date: 15.01.2022  
Place: New Delhi

**इंडियन बैंक Indian Bank**  
इलाहाबाद ALLAHABAD

**POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank) under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice on the dates noted against each account as mentioned hereinafter, calling them to repay to give to the under-noted borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described here in below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on the dates mentioned against each account. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with

